



सराहनीय कार्य थाना एचटीयू दिनांक 06-03-23 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत थाना एचटीयू व CWC (बाल कल्याण समिति) के पदाधिकारियों टीम की बड़ी सफलता कई वर्षों से बाल संरक्षण गृह में निरुद्ध 04 बच्चों को उनके माता-पिता को ढूँढकर किया सुपुर्द ।

- त्यौहार पर माता-पिता अपने खोए बच्चों से मिलकर हुए खुश ।
- अपनों से मिल माता-पिता व बच्चे नहीं रोक सके आँख से निकले आँसू ।
- थाना एचटीयू व CWC टीम द्वारा कई प्रदेशों में जाकर बड़ी मेहनत से बच्चों के माता-पिता को खोजा गया ।
- नम आँखों से माता-पिता व बच्चों द्वारा पुलिस का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा बाल संरक्षण गृह में निरुद्ध बच्चे जो कि कई वर्षों से अपने घर से गायब हो गए थे, को उनके माता-पिता से मिलाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमें थाना एचटीयू प्रभारी श्री भानू प्रताप सिंह मय पुलिस टीम व बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रदेशों के 04 बच्चों के माता-पिता को खोजकर उनके आज दिनांक 06-03-2023 को सकुशल सुपुर्द किया गया । जिसका विवरण निम्नवत है:-

**1-बच्चा अनमोल उम्र 13 वर्ष पुत्र स्व0 श्री हरीशपाल निवासी थाना निधौली कलाँ जनपद एटा जो कि अपने घर से गायब था जिसको दिनांक 19-04-2022 को बाल संरक्षण गृह में लाया गया था को थाना एचटीयू व CWC टीम द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए इनके माता पिता को ढूँढकर सुपुर्द किया गया ।**

**2- बच्चा विराट उम्र 10 वर्ष पुत्र श्री रवि सिसौदिया निवासी थाना घोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश जो कि अपने घर से गायब था जिसको दिनांक 29-07-2022 को बाल संरक्षण गृह में लाया गया था को थाना एचटीयू व CWC टीम द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए इनके माता पिता को ढूँढकर सुपुर्द किया गया ।**

**3- बच्चा कृष्णा उम्र 11 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा जो कि अपने घर से जो कि अपने घर से करीब 01 वर्ष पूर्व से गायब था को थाना एचटीयू व CWC टीम द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए इनके माता पिता को ढूँढकर सुपुर्द किया गया ।**

**4- बच्चा दीपक उम्र 13 वर्ष पुत्र विष्णु गुप्ता निवासी सैक्टर 04 निकट दुर्गा मंदिर फरीदाबाद हरियाणा जो कि अपने घर से करीब 03 वर्ष से गायब था को थाना एचटीयू व CWC टीम द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए इनके माता पिता को ढूँढकर सुपुर्द किया गया ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में बच्चों के माता-पिता को खोजकर उनके सपुर्द करने में थाना एचटीयू प्रभारी निरीक्षक श्री भानूप्रताप सिंह, उ0नि0 प्रेमपाल सिंह, उ0नि0 धनपाल सिंह, का0 जयगुरुदेव, का0 सतेन्द्र, का0 सुखदेव एवं CWC के पदाधिकारी श्री आशीष कुलश्रेष्ठ, श्री उग्रसेन पांडेय, श्री करन सिंह स्टनो की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।